

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपाल

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 624]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 नवम्बर 2018—अग्रहायण 5, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2018

फा. क्र. 5165-2018-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के छतरपुर जिले से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार विधान सभा निर्वाचन 2018 के लिये सेक्टर ऑफिसर / जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त अधिकारियों को विधान सभा निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बावजूद प्रस्ताव

जिले का नाम—छतरपुर

क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पद	विभाग का नाम	सेवा संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बाबूराम, सहा. बीज प्रमाणीकरण अधिकारी.	बीज प्रमाणीकरण	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला
2	श्री बाय. एस. परमार, सहायक वन संरक्षक.	उप वनमण्डलाधिकारी, छतरपुर	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला
3	आर. टी. सनागो, सहा. वन संरक्षक	उप वनमण्डलाधिकारी, छतरपुर	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला
4	डी. डी. असाटी, उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, नौगांव.	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
5	श्री के. बी. गुप्ता, सहा. वन संरक्षक	वन मण्डल बकस्वाहा	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला
6	जे. एल. अहिरवार, प. चि. वि. अधिकारी, बकस्वाहा.	पशु विभाग	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
7	मो. सगीर अंसारी, उपयंत्री	कार्य. अधि. कुटनी डेम, छतरपुर	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
8	श्री बी. आर. सोनी, उपयंत्री	कार्य. अधि. कुटनी डेम, छतरपुर	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
9	श्री एम. के. जैन, उपयंत्री	कार्य. अधि. कुटनी डेम, छतरपुर	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
10	श्री आर. के. प्रजापति, उपयंत्री	कार्य. यंत्री जल संसाधन संभाग, नौगांव.	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
11	श्री जी. आर. शर्मा, उपयंत्री	कार्य. यंत्री जल संसाधन संभाग, नौगांव.	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
12	श्री सियाराम वर्मा, उपयंत्री, उपखण्ड गौरिहार.	कार्यपालन यंत्री, लो. स्वा. यांत्रिकी, छतरपुर.	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
13	श्री हरीदास यादव, उपयंत्री, उपसंभाग, बड़ामलहरा.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव.	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
14	श्री रामश्वर प्रसाद नायक, उपयंत्री	कार्य. यंत्री, ग्रा. यां. सेवा, छतरपुर	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
15	श्री रामप्रकाश गुप्ता, उपयंत्री	कार्य. यंत्री, ग्रा. यां. सेवा, छतरपुर	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
16	श्री एच. पी. चतुर्वेदी, उपयंत्री	कार्य. यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव.	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
17	श्री आर. के. दुबे, उपयंत्री	कार्य. अधि. कुटनी डेम खजुवा, छतरपुर.	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
18	श्री ओमप्रकाश तिवारी, उपयंत्री	कार्य. यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव.	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
19	श्री ए. के. गुप्ता, उपयंत्री	अनु. अधि., जल मौसम विज्ञान उप क्र. 09, छतरपुर.	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
20	श्री राकेश कुमार गुप्त, उपयंत्री	कार्या. कार्यपालन यंत्री, लो. स्वा. यां., छतरपुर.	तृतीय	सम्पूर्ण जिला

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	बसंत अग्रवाल, कार्यपालन यंत्री	लोक निर्माण विभाग, पी.आई.यू. नौगांव.	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला
22	जगदीश प्रसाद, मिश्रा, प्रभारी नगरपालिका अधिकारी,	नगर परिषद्, गढ़ीमलहरा	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
23	एस. पी. एस. बुंदेला, सहा. संचालक	उद्यानिकी विभाग, छतरपुर	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
24	आनंद त्रिपाठी, उपयंत्री	कार्यालय यंत्री, लोक निर्माण विभाग	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
25	अनूप असांठी, उपयंत्री	कार्यालय यंत्री, लोक निर्माण विभाग	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
26	डी. के. सोनी, कार्यपालन यंत्री	एस.टी.एस. म. प्र. पूर्व क्षेत्रीय विभाग, छतरपुर.	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला
27	एच. एस. दीक्षित, अतिरिक्त जिला समन्वयक.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला
28	आर. ए. मिश्रा, सहा. यंत्री	एस.टी.एस.व. म. प्र. पूर्व क्षेत्रीय विभाग, छतरपुर.	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
29	योगेन्द्र नायक, प्रक्रिया अधिकारी	बीज निगम छतरपुर	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
30	संतोष कुमार शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी.	जिला शिक्षा अधिकारी	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला
31	आनंद नारायण पाण्डेय, जिला विपणन अधिकारी.	विपणन अधिकारी, कार्यालय, छतरपुर	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
32	अनीस खा. उपयंत्री	कुटनी बांध जल संसाधन विभाग	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
33	मधुर कुमार सक्सेना	जल संसाधन विभाग, उपसंभाग, खजुराहो.	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
34	आर. के. देवगन, उपयंत्री	कुटनी बांध, जल संसाधन विभाग	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
35	राजेन्द्र कुमार गगेले, उपयंत्री	पी.एच.ई., छतरपुर	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
36	तुलसीदास अहिरवार, उपयंत्री	पी.एच.ई., उपखण्ड नौगांव	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
37	श्री आर. पी. शर्मा, उपयंत्री	कुटनी बांध, जल संसाधन विभाग	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
38	देवेन्द्र प्रसाद अग्नीहोत्री, उपयंत्री	जनपद पंचायत, छतरपुर	तृतीय	सम्पूर्ण जिला
39	श्री राधेश्याम शर्मा, एस.डी.ओ.	परियोजन यंत्री, लो.नि.विभाग, पीआईयू, नौगांव	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला
40	श्री आर. पी. गुप्ता, उपयंत्री	पी.एच.ई., छतरपुर	तृतीय	सम्पूर्ण जिला

कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.